

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश की आजादी के आंदोलन में और आजादी के बाद देश के नव निर्माण में सैनी समाज का योगदान सराहनीय रहा है। इस सैनी समाज का इतिहास जितना गौरवशाली और महान है, उतना ही यह प्राचीन भी है और ऋग्वेद में श्रेणी नामक वीर जाति का वर्णन मिलता है, उसी वंश में आगे चलकर महाराजा 'शूरसैनी' ने शूरसैनीगण की स्थापना की थी। इस समाज के लोग सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर अपनी महान परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं सरकार इन महापुरुषों के पदचिन्हों पर चलकर सीएम यानि कॉमन मैन के लिए ही कार्य कर रही है। वे रविवार को थीम पार्क में सैनी समाज सभा द्वारा आयोजित पहले राज्यस्तरीय महाराजा शूरसैनी जयंती समारोह में बोल रहे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सैनी समाज सभा द्वारा करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित बहुमंजिला महात्मा ज्योतिबा फुले ब्लॉक का उद्घाटन किया। इसके बाद महाराजा शूरसैनी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला, सांसद नायब सिंह सैनी, कार्यक्रम के संयोजक एवं पूर्व विधायक डॉ. पवन सैनी, रादौर के विधायक डॉ. बिशन लाल सैनी, थानेसर विधायक सुभाष सुधा, शाहबाद के विधायक रामकरण काला, पूर्व सांसद कैलाशो सैनी, पूर्व मंत्री हरी सिंह सैनी, बलबीर सैनी, अतर सिंह सैनी, पूर्व विधायक साहब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री के राजनैतिक सचिव एवं पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, पूर्व मंत्री कर्णदेव काम्बोज, चेयरमैन डा. ऋषिपाल सैनी, भाजपा के जिलाध्यक्ष धर्मवीर मिर्जापुर, जिला परिषद के चेयरमैन गुरदयाल सैनी, सैनी समाज सभा कुरुक्षेत्र के अध्यक्ष गुरनाम सिंह सैनी, आल इंडिया सैनी समाज दिल्ली के प्रधान दिलबाग सैनी भी मौजूद रहे।